

Riba Textiles Limited

(GOVT. RECOGNISED EXPORT HOUSE)

REGD. OFFICE: DD-14, NEHRU ENCLAVE, OPP. KALKAJI POST OFFICE, NEW DELHI-110019 TELEPHONE: (011) 26236986 FAX: (011) 26465227 CIN NO.: L18101DL1989PLC034528

To,
Corporate Relation Department **BSE Ltd.**25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street Mumbai -400001

Scrip Code: 531952/Equity

Dear Sir(s)

Date: 07.12.2020

Sub: Submission of newspaper Publication in Compliance with SEBI (Listing Obligations and Requirements) Regulations, 2015.

Please find enclosed herewith Newspaper Publication of Notice of 32nd Annual General Meeting of the Company, in compliance with Regulation 47 of Listing SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

We request you to please take the above on your record.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Riba Textiles Limited

(Neha Dubey) [△] Company Secreta

M. No.: A46655

Encl.: As above

FE SUNDAY

Particulars

Name of corporate debtor

incorporated/ registered

with the Board

Date of incorporation of corporate debtor

Authority under which corporate debtor is

Corporate identity number / limited liability

Address of the registered office and principal

Date of closure of Insolvency Resolution Process

Liquidation Commencement date of Corporate

Insolvency Professional acting as Liquidator

Address and e-mail of the liquidator, as registered

identification number of corporate

Name and registration number of the

Address and e-mail to be used for

11 Last date for submission of claims

Date: 03" December, 2020

ICL Organic dairy Products Limited

presence of Members at a common venue.

of the Company and BSE Ltd.)

Wednesday, 23rd December, 2020.

investor@cameoindia.com

Place: Noida

Place: New Delhi

correspondence with the Liquidator

uploaded on the NCLT Website on 2" December, 2020)

may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

office (if any) of corporate debtor

WELGA FOODS LIMITED REGD. OFFICE: SHIAM NAGAR, BUDAUN-243601 U. P.

CIN: U15419UP 1983PLC005918

E: marketing@welgafoods.comW: www.welgafoods.com T:+91 5832 224535 **F**: 5832 224561

PUBLIC NOTICE

FOR KIND ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS -NOTICE OF **ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that 37th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, 28th December, 2020, at 11:00 A.M. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with MCA Circular dt. 05/05/20 read with circulars dated 08/04/20 & 13/04/20 and for the said purpose it proposes to transact the business mentioned in the Notice of AGM. The Notice of AGM has been sent to all the members whose email Id's were registered with the Company & in the records of Depositories as on 5th December, 2020. In case any shareholder has still not registered his email ID or contact details with the company, we once again request them to update their Email IDs & contact numbers for supply of Annual Reports, Notice of AGM and other communications from the Company at welgacs@gmail.com, jvpcorporateconsultant@gamil.com latest by Thursday 24th December, 2020. Kindly note that no physical copy of Annual Report 2019-20 will be sent to the members either before or after the AGM.

> BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR WELGA FOODS LIMITED

> > Macor Packaging Limited

L74950DL1996PLC018459

NCLT Website on 02.12.2020

Name - Mohd Nazim Khan

Tel: +91-11-45095230

New Delhi-110008

New Delhi-110008

26" December, 2020

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal New Delhi Bench IV has ordered

the commencement of liquidation of Macor Packaging Limited on 26th November, 2020 (Order copy was

The stakeholders of Macor Packaging Limited are hereby called upon to submit a proof of their claims or

update their claims on or before 26th December, 2020 to the liquidator at the address mentioned against

The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders

ICL Organic dairy Products Limited

A-105, 3rd floor, sector-63, Gautam Buddha Nagar, Noida 201301 UP

Email: organicipo@gmail.com TEL. NO. - 0120-4319744

Notice of Annual General Meeting to the Members

Notice is hereby given that the 07th Annual General Meeting ('AGM') of the members of

('The Company') will be held on Wednesday, 30th December, 2020 at 01:00 p.m. IST

In view of the outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing norms to be

followed and the continuing restriction on movement of persons at several places in the

country and pursuant to General Circular Nos.14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated

April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020, respectively, issued by the Ministry of

Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/ CFD/ CMD1/CIR

/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India

("SEBI Circular") and in compliance with the provisions of the Act and the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"),

the 07th (Twenty Seventh) AGM of the Company is being conducted through Video

Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), which does not require physical

The Notice of 07th AGM along with the Annual Report for the FY 2019-20 have been sent

to all those Members whose e-mail IDs were registered with the Company or their

respective depositories. The Members can join the 07th AGM of the Company through

VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and the manner of

participation in the remote e-voting or casting of the vote through e-voting system during

The Annual Report is also available on the website of the Company and BSE Ltd. (old

matter: The notice of the AGM and the Annual Report are also available on the website

The Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Thursday,

24th December, 2020 to Wednesday 30th December, 2020 (both days inclusive) for the

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the

Company after dispatch of the Notice and is holding shares as of the cut-off date, i.e.

. The voting period begins Sunday, 27th December, 2020 at 9.00 a.m. (IST) and ends on

Tuesday, 29th December, 2020, at 5.00 p.m. (IST). During this period Shareholders of

the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the

cut-off date, i.e., Wednesday, 23rd December, 2020 may cast their vote electronically.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also

attend / participate in the AGM through VC/ OAVM but shall not be entitled to cast their

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently

Asked Questions ("FAQs") and E Voting manual available at www.evotingindia.com,

under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call

Members are requested to send all communications relating to shares, change of

address, bank details, email address etc., to the Company's Registrar and Share

Transfer Agent Cameo Corporate Services Ltd.at "SUBRAMANIAN BUILDING", #1

Club House Road, Chennai-600002, India can also send an email at

Roop Kishore Gola

The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

the 07th AGM has been provided in the Notice of the 07th AGM of the Company

through video conferencing ('VC')/ other audio visual means ('OAVM') facility.

Haryana, New Delhi

12.08.1996

26.11.2020

Registration No.

PLACE: BUDAUN DATE: 05/12/2020

FORM B

PUBLIC ANNOUNCEMENT

[Under Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

(Liquidation Process) Regulations, 20161

GYAN PRAKASH MANAGING DIRECTOR

The Registrar of Companies, NCT of Delhi &

Registered Office: 3198/15, 4" Floor, Gal

No.1, Sangatrashan, Pahargani, New Delhi-

26.11.2020. Copy of Order was uploaded on the

Address-G-41, Ground Floor, West Patel Nagar

Email address: nazim@mnkassociates.com

Mohd Nazim Khan

(Liquidator)

IBBI/IPA-002/IP-N00076/2017-18/10207

RIBA TEXTILES LIMITED

Fullerton India Credit Company Limited

Corporate Office: Supreme Business Park, Floors 5 & 6, 8 Wing, Powai, Mumbai 400 076

Branch Office: B-45/47, 3rd Floor, Near PVR Plaza, Connaught Place, New Delhi – 110 001

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice of 24 days for Sale of Immovable Asset(s) under the Securitisation

and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and

Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the

Secured Creditor, the symbolic possession of which has been taken by the Authorised

Officer of Fullerton India Credit Company Limited/Secured Creditor, will be sold on "As is

where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 28.12.2020 at 11:00 am to

02:00 pm (with unlimited extensions of 5 minute each), for recovery of Rs.

2,30,05,434/- (Rupees Two Crore Thirty Lakh Five Thousand Four Hundred Thirty

Four Only) due as on 07.11.19 and further interest and other expenses thereon till the

date of realization, due to Fullerton India Credit Company Limited/Secured Creditor from

the Borrowers and Guarantor(s) namely Ram Raj Medicos, Mr. Ajay Kumar Gupta, Ms.

The reserve price will be Rs. 2,35,00,000/- (Rupees Two Crore Thirty Five Lakh Only)

and the Earnest Money Deposit (EMD) will be Rs. 23,50,000/-(Rupees Twenty Three

Description of Immovable Property: All the part and parcel of property bearing -

"Property No. WA - 75, Part of Khasra No. 177, Block WA, Shakarpur, Delhi 110092"

(admeasuring 212 Sq. yards) owned by Mr. Ajay Kumar Gupta and Smt. Rajkumari)

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Fullerton

SD/-. Authorised Officer.

Fullerton India Credit Company Limited

India Credit Company Limited/Secured Creditor's website i.e. www.fullertonindia.com

Alka Gupta, Mr. Sudhir Gupta, Ms. Sandhya Gupta, Ms. Rajkumari.

Lakh Fifty Thousand Only). The last date of EMD deposit is 26.12.2020.

read with proviso to rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

CIN: L18101DL1989PLC034528 Registered Office: DD-14, Nehru Enclave, Opp. Kalka Ji Post Office, New Delhi-110019 Email: company.affairs@ribatextiles.com, Website: www.ribatextiles.com Tel No.: +91 11 26236986, Fax No.: +91 11 26465227

NOTICE OF 32rd AGM, E-voting and Book Closure NOTICE is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of the members of Riba Textiles Limited ("the Company") will be held Wednesday, the 30th day of December, 2020 at 11:30 AM through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice which was sent along with the Annual report by electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/RTA.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended time to time, the register of Members and share transfer books of the Company shall remain closed from 24" December 2020 to 30" December 2020 (both days inclusive) for the purpose of

In Compliance with the Provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI LODR 2015 (including statutory modification(s) or re-enactment thereof, for the time being in force), The Company is pleased to provide its member the facility to cast their vote electronically, through e-voting facility on the platform of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for all the resolutions proposed to be considered in Notice of Annual General Meeting.

Further, the facility of e-voting shall also be available at the AGM. The members who have already casted their vote electronically through the e-voting prior the AGM may also attend the AGM through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) but shall not be entitled to cast their vote at the AGM.

Mr.Karan Arora, proprietor of M/s Karan Arora & Associates a Practicing Company Secretary (Membership No. 41391) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the E-voting and remote e-voting process and E-voting process at AGM in a fair and transparent manner.

Fullerton India

Date: 06.12.2020

may be transacted through voting by electronic means;

The remote e-voting period commenced on 27" December, 2020(10:00 Am) and ends on 29th December, 2020(05:00 P.M.);

the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 23rd December, 2020 can cast their vote through remote e-voting by obtaining the log in ID and password by sending an email to heldesk.evoting@cdslindia.com or call on022-23058542/43 or Beetalrta@gmail.com by mentioning their Folio No. /DP ID no. However, if such shareholder is already registered with the RTA/DP for remote e-voting the existing user ID and Password can be used for casting vote. The Member may note that:

c. A member may participate at the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again. d. A person whose name is recorded in the register of member or in the register of

beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 23"

as e-voting at the AGM. The notice of 32nd AGM of the Company is available on the Company's website www.ribatextiles.com and BSE website www.bseindia.com; and In case you have queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently

under help section or write an email to helpdesk evoting@cdslindia.com. The helpdesk can also be contacted on their toll free number: 1800-22-5533.

Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com

"Notes" in the Notice of the Annual General Meeting. By order of the Board of Directors

For Riba Textiles Limited

(Ravinder Garg) Chairman & Whole-time Director

Date: 05.12.2020

Corporate Office: 16A. Najafgarh Road, Moti Nagar, New Delhi - 110015 Ph: +91-11-47634400, Fax: +91-11-47634423, CIN No. L63020DL1992PLC121695 Website: www.sindhutrade.com, Email id:- corporatecompliance@sindhutrade.com NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given that:

INFORMATION AND BOOK CLOSURE ETC.

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14 2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April 2020, 13th April, 2020 and 5th May, 2020

Report for the year 2020 including the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2020 ("Annual Report") has been sent by email to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants(s). The requirements of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular/s and SEBI Circular.

off date of Friday, 25th December, 2020 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("remote e-Voting") of National Securities Depository Limited ("NSDL")

transacted through voting by electronic means: the remote e-Voting shall commence on Monday, 28th December, 2020 at 9:00 a.m. IST

the e-Voting system during the AGM, is Friday 25th December, 2020

by email and holding shares as on the cut-off date i.e. 25th December, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or corporatecompliance@sindhutrade.com or pk.mittal@indusinvest.com. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-Voting then existing user ID and password can be used for casting vote;

the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may participate in the AGM through VC/OAVM Facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during the AGM; c) the Members participating in the AGM and who had not cast their vote by remote e-Voting, shall be entitled to cast their vote through e-Voting system during the AGM; and d) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting, participating in the AGM through VC/OAVM Facility and e-Voting the Notice of the AGM and the Annual Report are available on the website of the

Company at www.sindhutrade.com and the website of BSE Limited at www.bseindia.com. The Notice of the AGM is also available on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com and

Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in. or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager or Ms Pallavi Mhatre, Manager National Securities Depository Ltd., Trade World, "A", Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, at the designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or AmitV@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or at telephone nos. +91-22-2499 4360 or +91-99202 64780 or +91 22 2499 4545, who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at the Company's email address corporatecompliance@sindhutrade.com

registered with the Company, may register their email address by sending, scanned copy of a signed request letter mentioning name, folio number and complete address, self-attested scanned copy of the PAN Card; and self-attested scanned copy of any document (suchas AADHAR Card, Driving Licence, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company, by email to corporatecompliance@sindhutrade.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participant.

Suchi Gupta

OROSIL SMITHS INDIA LIMITED CIN: L74110DL1994PLC059341

Regd. Office: Flat No. 620, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi 110019 Corp. Office: A-89, Sector-2, Noida (U.P.) 201301, India

Phone No.: +91-0120-4125476, Email Id.: info@orosil.com, Website: www.orosil.com NOTICE TO THE MEMBERS OF THE 26TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 26th Annual General Meeting ("AGM") of Orosil Smiths India Limited ("the Company") will be convened on Wednesday, 30th December, 2020 at 12:00 P.M. through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OVAM") facility n compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed there under, circular dated 5th May 2020 read with circulars dated 8th April, 2020 and 13th April 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars"), the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and circula dated 12th May 2020 issued by the SEBI ("SEBI Circular"), without physical presence of the Members at a common venue. The Notice of the 26th AGM and the Annual Report for the year

2019-20 including therein the Audited Financial Statements for financial year ended 31st March, 2020, will be sent only by email to the Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective depository participants in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circular The members can join and participate in the 26th AGM through VC/OVAM facility only. The instructions for joining the 26th AGM and the manner of participation in the remote e-voting or e-voting during the 26th AGM are mentioned in the Notice of 26th AGM Attendance of the Members of the Company, participating in the 26th AGM through VC / OAVM Facility will be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 26th AGM will also be available on the website of the Company at www.orosil.com, or the website of BSE Limited at www.bseindia.com

The Members holding shares in physical form who have no registered their email addresses with the Company and who wish to receive the Notice of the 26th AGM and the Annual Report for the year 2019-20 and/or login details for joining the 26th AGM through VC/OAVM facility including e-voting, can now registe their e-mail addresses with the Company. For this purpose they can send scanned copy of signed request letter mentioning folio number, complete address and the email address to be registered along with self attested copy of the PAN Card and any document supporting the registered address of the Member, by email to the Company at cs@orosil.com. Members holding shares in demat form are requested to register their email addresses with their Depository Participant(s) only.

Place: Delhi (Managing Director Date: 05.12.2020

PUBLIC NOTICE General Public is hereby informed that my client Bank of Baroda, Dilshad Garden Branch, C-14, Dilshad Colony, Dilshad Garden, Delhi 110095 had lost the following set of original documents related to property no. C-10/85, Yamuna Vihar, Delhi 110053 of Harish Kumar & Mrs. Kamlesh Kumari A/c No 31680400000025 (1) Perpetual Lease Deed dated 16.02.1977 (2) Certificate of Possession of year 1976 (3) Possession letter of year 1976 (4) DDA site plan of plot (5) Occupancy Certificate (6) General Power of Attorney dated 11,11,1992 (7) Agreement to Sell dated 11.11.1992 (8) Deed of Will dated 11.11.1992. In this regard a LR No. 573188/2020 dated 15.09.2020 was already lodged by my

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify any manner whatsoever.

Gautam Budh Nagar U.P. 201306 CIN- L92111DL1985PLC021095, Ph: 0120-2569761, Fax: 0120-2569769 Email Id: corp.compliance@calcomindia.com, Website: www.calcomindia.com PUBLIC NOTICE - 35TH ANNUAL GENERAL MEETING

CALCOM VISION LIMITED

Regd. Office: C-41, Defence Colony New Delhi-110024

Corp. Office: B-16, Site-C Surajpur Industrial Area Greater Noida

This is to inform that in view of the outbreak of Covid-19 pandemic, the 35th Annual General Meeting ("AGM") of Calcom VisionLimited ("the Company") will be held through video conferencing (VC)/ other audio visual means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) circular dated 5th May, 2020 read with circular dated 8th April, 2020 & 13th April, 2020 and Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its circular dated 12th May, 2020 (collectively referred to as Circulars) on Thursday, 31st December, 2020 at 11:00 A.M. to transact the business as set out in the Notice of AGM which will be sent in due course of time. Members may further note that in pursuance of above stated circulars

and in furtherance of Go-Green initiative of the government, the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2019-20, will be sent through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant. The members attending the meeting through VC or OAVM shall be counted for the purpose of quorum under section 103 of the Act. The Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its Members similar to he e-copy of the notice of the AGM along with the Annual Report for the

Y 2019-20 of the Company will be available on the website of the Company at www.calcomindia.com and also be available on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com, in due course of time. he Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM

only. Detailed instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of AGM. Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the AGM of the Company in person, to ensure compliance with the directives issued by the government authorities with respect to Covid-19 pandemic. In case the email address is not registered with the Company / Depository

Participant, please follow the process of registering the same as mentioned Send a request to Registrar and Transfer Agents of the

Company, Abhipra Capital Limited at info@abhipra.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address. Please send your bank detail with original cancelled cheque

> to our RTA (i.e. Abhipra Capital Limited, Ground Floor-Abhipra Complex, A-387, Dilkhush Industrial Area, G.T. Karnal Road, Delhi-110033 alongwith letter mentioning folio no. if not

Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP.

Members may also note that if your e-mail id is registered with the Company. Depository Participant, the login credentials for remote e-voting / e-voting during the AGM will be sent on the registered e-mail address along with

above. Members may note that the detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM is also mentioned in the notice of AGM. The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA

Circular(s) and the SEBI Circular. For CALCOM VISION LIMITED

Place: Noida Date: 05.12.2020 Company Secretary M. No. ACS-55567

For All Advertisement Booking Call: 0120-6651214

HINDUSTAN EVEREST TOOLS LIMITED CIN No. L74899DL1962PLC003634 Registered Office: Dohil Chambers, 46, Nehru Place. New Delhi 110019

Ph. No.: 011-46579476 Website: www.everesttools.com, Email: admin@everesttools.com

(A) ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 57th Annual General Meeting (AGM) of the

members of the Company is scheduled to be held on **Wednesday, 30th December, 2020 at** 10:30 A.M. at PHD House, Opposite Asian Games Village, Siri Fort Road, New Delhi 110016 to transact the Business as set forth in the Notice of AGM dated 11th November. The Notice of 57th AGM, Annual Report and Attendance Slip has been sent in electronic

mode to the Members whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA/Depository Participant(s). Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice and Annual Report to the Members has been dispensed with vide Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular No. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, and 05th May, 2020 and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020.

Company at www.everesttools.com and also on the website of BSE Limited at www.bseindia.com where the Equity Shares of the Company are listed and on NSDL website http://www.evoting.nsdl.com/. Members, who did not receive the Annual Report, may download it from the Company's website or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary at the Registered Office of the Company or at the company's email ID admin@everesttools.com/ sonam@everesttools.com. The Company has completed the sending of email to Members on 5th December, 2020. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the Annual General Meeting are open for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on any working day between 11:00 am to 1:00 pm.

Members who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the Company/RTA/their respective Depository Participants are requested to register their e-mail addresses at the earliest for receiving the Annual Report

Physical Send a signed request to Registrar and Transfer Agent of the Company (RTA)

number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN(Self-attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self-attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address. Please send your bank details with original cancelled cheque to our RTA (i.e M/s. Link Intime India Pvt. Limited, Noble Heights, 1st floor, Plot No NH-2, C-1 Block, LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi – 110058 alongwith

For any query related to this, Members may contact the RTA at 011-49411000.

address and Bank A/c details as per the process advised by DP.

Notice is further given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, 24th December, 2020 to Wednesday, 30th December, 2020 (both days inclusive).

and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards on General Meetings, the Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through e-voting Services provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The e-voting period commences on Sunday, 27th December, 2020 at 09:00 A.M. and ends on Tuesday, 29th December, 2020 at 05:00 P.M. The e-voting module shall be disabled for voting after 05:00 P.M. on Tuesday, 29th December, 2020. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM. The company has sent the Notice of AGM to the members on 5th December, 2020 via e-mail on their registered E-mail Id's.

The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the Member(s) as on Wednesday, 23rd December, 2020 (cut-off date). Members are eligible to cast vote electronically only if they are holding shares as on that date. The persons who acquire shares and become members of the Company after the dispatch of the Notice and hold shares as on cut-off date, may obtain User Id and Password by sending a request at

The procedure of electronic voting is available in the Notice of the 57th Annual General Meeting as well as in the email sent to the Members by NSDL and NSDL website http://www.evoting.nsdl.com. Shareholders are requested to take note of the same. In case of any queries pertaining to e- voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the Downloads section of http://www.evoting.nsdl.com/ or contact Mr. Abhishek Mishra, Manager, NSDL at the designated emails ID: evoting@nsdl.co.in or abhishekm@nsdl.co.in or at following Telephone Nos.: 011-23353814(15)

The entry to the meeting venue will be regulated by Attendance Slips, Members are requested to print the Attendance Slip and submit a duly filled in Attendance Slip along with duplicate Attendance Slips will not be issued.

along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website: www.everesttools.com and on the website of NSDL http://www.evoting.nsdl.com within two (2) days of passing of the resolutions at the AGM of the Company and communicated to the BSE Limited.

> Sonam Gupta **Company Secretary**

For Hindustan Everest Tools Limited

Date: 05th December, 2020

GENOMIC VALLEY BIOTECH LIMITED Regd. Off.: 4 K.M. Stone, Berri Chharra Road, Village- Kherka Musalman, P.O. Tandaheri, Tehsil-Bahadurgarh, District-Jhajjar, Haryana-124507 CIN: L01122HR1994PLC033029: Tele: +91-9811341542 Email: genomicvalley@gmail.com; Visit: http://www.genomicvalley.com

Notice of 26th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 26th (Twenty Sixth) Annual General Meeting ("AGM") of Genomic Valley

Biotech Limited (CIN L01122HR1994PLC033029) will be held on Thursday, 31st December, 2020 at 11:00 A.M. at the Registered Office of the Company at 4 K.M. Stone, Berri Chharra Road, P.O. Tandaheri, Teh. Bahadurgarh, Dist. Jhajjar, Haryana-124507 to transact the businesses as set forth in the Notice of the AGM which is to be sent by e-mail to all members of the Company In compliance with the Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with Circular No. 14/2020 and 17/2020 dated 8th April, 2020 and 13th April, 2020 respectively ("MCA Circulars") issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and applicable provision of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations), the AGM of the Company will be held at the Registered Office of the Company at 4 K.M. Stone, Berri Chharra Road, P.O. Tandaheri, Teh.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated 12th May, 2020, the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2019-20 to be sent to all the members whose email addresses are registered with the Company / Depositories. The Notice of AGM and Annual Report also to be made available on the website of the Company i.e www.genomicvalley.com and the websites of the Stock exchange i.e. BSE Limited at In order to receive the Notice and Annual Report, members are requested to register/update their

email addresses with the Depositories in case share are held in demat and with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company i.e. Beetal Financial & Computer Services Private Limitedin case shares are held in physical mode. For any query relating to registration of e-mail address, members may write at beetal@beetalfinancial.com or cs.gvbl@gmail.com. Members holding shares in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date shall be

entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting at AGM and voting at AGM Venue. The

Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited to provide e-voting facility.

Place: Haryana

Date: 05.12.2020

Bahadurgarh, Dist. Jhajjar, Haryana-124507.

members who have already casted their votes by remote e-voting prior to the AGM may attend

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained with depositories as on cut-off date will be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM venue.

A person who becomes the member of the Company after dispatch of the notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the user id and password by sending a request at beetal@beetalfinancial.com or cs.gvbl@gmail.com. Members holding shares in physical form, who have not registered their email addresses with the

cs.gvbl@gmail.com. The Members are requested to update their complete bank account details with their Depositories in case shares are held in demat mode and in case of physical holding, with the Company's RTA

By order of the Board For Genomic Valley Biotech Limited (Yogesh Agrawal)

Address-G-41, Ground Floor, West Patel Nagar Email address: nazim@mnkassociates.com

All the members are hereby informed that:

The ordinary and special business as set out in the notice of 32¹⁰ AGM of the Company.

Cut-off date is 23" December 2020: Person who acquire and becomes shareholders of the Company after the dispatch of

Remote e-voting shall not be allowed beyond 29th December, 2020(5:00 P.M. IST)

 The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM of the Company and member attending the AGM who have not already casted their vote by remote e-voting shall be able to vote at the AGM.

December, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well

For detailed instructions pertaining to E-voting members may please refer to section

DIN: 00202164

Place: Panipat

SINDHU TRADE LINKS LIMITED

Regd. Office: 129, Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110035

The 28th Annual General Meeting of the Company (AGM") will be convened on Thursday 31st December, 2020 at 11:00 a.m. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") Facility to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and Circular No. SEBI/ HO/ CFD/ CMD1/ CIR/ P/ 2020 /79 dated 12th May 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence

In terms of MCA Circular/s and SEBI Circular the Notice of the AGM and the Annual

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-

the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM, will be

the remote e-Voting shall end on Wednesday, 30th December, 2020 at 5:00 p.m. IST; the cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-Voting or through any person, who becomes Member of the Company after sending the Notice

Members may note that: a) the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after

in case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for

those Members holding shares in physical form, whose email addresses are not

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain

inclusive) for annual closing for purpose of annual general meeting of the Company. For Sindhu Trade Links Limited Place: New Delhi

Dated: 05.12.2020 Place: New Delhi

Place: New Delhi

Date: 05.12.2020

Alassifieds

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to

its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in

RITESH PROPERTIES AND INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 11/5B, PUSA ROAD, NEW DELHI DL 110060 IN Ph: +91-9212359076, Email-ID: riteshlimited8@gmail.com Website: www.riteshindustries.us, CIN: L74899DL1987PLC027050

NOTICE OF THE THIRTY THIRD (33RD) ANNUAL GENERAL MEETING.

REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

1) Notice is hereby given to the members that the Thirty Third (33rd) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of RITESH PROPERTIES AND INDUSTRIES LIMITED will be held on Monday, 28th day of December, 2020 at 12:00 Noon (IST) through video conferencing ("VC")/other audio visual means ("OAVM") in accordance with the applicable provisions of the companies act, 2013 ("act, 2013") read with ministry of corporate affairs ("MCA") general circular no. 20/2020 dated 5th may, 2020 read with general circular no. 14/2020 and 17/2020 dated 8th April, 2020 and 13th April, 2020 respectively, and sebi circular sebi/ho/cfd/cmd1/cir/p/2020/ dated 12th may, 2020 to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

2) The register of members and the share transfer book of the company will remain closed from Tuesday, 22nd December, 2020 to Tuesday 29th December, 2020 (both days inclusive) for the purpose

3) In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular dated 5th May, 2020 read with circulars dated 8th April, 2020 and 13th April, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular dated 12th May, 2020 permitted holding of the Annual General Meeting ("the Meeting/AGM") through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members, Directors Auditors or other eligible persons at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act, 2013"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and aforesaid MCA and SEBI Circulars the AGM of the Company is being held through VC/OAVM. Hence, Members including the other eligible persons can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only as per the procedure mentioned in this Notice of AGM.

4) In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars. electronic copy of the Annual Report for the financial year 2019-20 and Notice of the 33rd AGM of the Company, inter alia, indicating the process and manner of e-voting will be sent only through electronic mode to all the Members whose e-mail IDs are registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agent/Depository Participant(s) for communication purposes, as the requirement of sending the hard copies of annual report and notice of AGM has been dispensed with. Members may note that the Notice and Annual Report will also be available on the Company's website www.riteshindustries.us, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com respectively. Further, the Notice of AGM is also available on the website of Central Depositories Securities

5) In compliance with the said Circulars, the Company has also published a public notice by way of an advertisement made dated August 21 2020 and December 04, 2020 in Business Standard both in Hindi and English Newspaper having circulated in New Delhi a wide circulation along with their electronic editions, inter alia, advising the members whose e-mail ids are not registered with the Company, its Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or Depository Participant(s) (DPs), as the case may be, to register their e-mail ids with them.

In accordance with the provisions of Section 108 of the Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and amendments thereto and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and in view of the aforesaid MCA and SEBI Circulars, the Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide the facility of voting by electronic voting system to all the Members to enable them to cast their votes electronically during the AGM in respect of all the businesses to be transacted at the aforesaid Meeting. The facility of casting the votes by the Members using such electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") is also provided by CDSL. Members who have cast their vote their votes by remote e-voting prior to the AGM may participate in the AGM but shall not be entitled to cast their votes again. The manner of remote e-voting by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses is

provided in the instructions for e-voting section which forms part of this Voting rights of the members for voting through remote e-voting or evoting system provide in the Meeting itself shall be in proportion to shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. 21st December, 2020. A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners (as at the end of the business hours) maintained by the depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e voting or e-voting system provide in the Meeting.

8) The remote e-voting period commences on Friday, December 25, 2020 at 9:00 AM (IST) and ends on Sunday, December 27, 2020 at 05:00 PM (IST). Thereafter, e-voting module shall be disabled for voting by

The Members whose name appears in the Register of Members of the Company as on Monday, December 21, 2020 (Cut-off date). The Members may cast their votes on electronic voting system from place other than the venue of the meeting (remote e-voting). The remote evoting shall commence on 25th December, 2020 at 9:00 AM and ends on 27th December, 2020 at 05:00 PM. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. The e-voting module shall be disabled by CDSL for 10) The members who have cast their votes by remote e-voting may

attend the meeting but shall not be entitled to caste there vote again. 11) The Annual report and Notice of the 33rd Annual General Meeting

along with explanatory statement and other annexure are also displayed on the Company's website https://riteshindustries.us/pdf/Annual_Report_RPIL_AR_19-20.pdf and on the website of the agency i.e. www.cdsl.com In case you have any gueries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual

available at www.evoting.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or the grievance can be addressed to Ms. Tarandeep Kaur, Company Secretary at the registered office of the Company or at email. riteshlimited8@gmail.com or at +91-NOTICE is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015. The Register of Members and Share

Transfer Books of the Company will remain closed from December

22nd, 2020 to December 29th, 2020 (both days inclusive) for the

For RITESH PROPERTIES AND INDUSTRIES LIMITED sd/-(Tarandeep Kaur) Company Secretary

New Delhi

client with Delhi Police. If any person uses the aforesaid documents it shall be unauthorised and illegal Umesh Joshi (Advocate) Chamber No. 1319, Rohini Courts Delhi 110085 Mob: 9910568669

registered already.)

the notice of AGM. However members who have not registered their email-id can follow the procedure for registering e-mail id as mentioned

Aayushi Jindal

Notice For 57th Annual General Meeting, Book Closure & E-Voting

The Notice and the Annual Report for the FY 2019-20 is available on the website of the

along with AGM Notice for all the future correspondence. Updating the correct email address will help us to communicate with you effectively.

The process of registering the e-mail address and updating the bank details is as below: Link Intime India Pvt. Limited at delhi@linkintime.co.in providing Folid

letter mentioning folio no. If not registered already.)

Please contact your Depository Participant (DP) and register your email

(B) BOOK CLOSURE

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended,

the Self-Declaration Form at the registration counter to attend the AGM. **Please note that** The Results shall be declared on or after the AGM of the Company. The Results declared

financialexp.epap.in

the AGM but shall not be entitled to vote again;

Company can obtain the Notice of the AGM alongwith the Annual Report 2019-2020 by sending scanned copy of request letter mentioning the folio no. and name of the shareholder, self attested copy of PAN and AADHAR by email to the Company at beetal@beetalfinancial.com or

or Company at beetal@beetalfinancial.com or cs.gvbl@gmail.com respectively along with the copy of the request letter mentioning the name of the member, folio number, bank account details, selfattested copy of PAN and cancelled cheque leaf.

> Chairman & Managing Director Date: 5th December, 2020 DIN: 01165288

closed from Friday, 25th December, 2020 to Thursday 31st December, 2020 (both days

Company Secretary

purpose of Annual General Meeting of the Company.

PARK

B.K. Narula

DIN: 00003629

Sd/

For Orosil Smiths India Ltd

रजनीकांत की राजनीति किसी धर्म के खिलाफ नहीं: मनियन

चेन्नई, 5 दिसंबर (भाषा)।

सुपरस्टार रजनीकांत के नजदीकी सहयोगी टी. मनियन ने शनिवार को कहा कि रजनीकांत की राजनीति का किसी धर्म विशेष से लेना देना नहीं होगा और वह बिना किसी भेदभाव के. समावेश की राजनीति करेंगे। मनियन ने कहा कि आध्यात्मिक राजनीति की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। रजनीकांत ने गुरुवार को कहा था कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वह जनवरी 2021 में अपनी राजनीतिक

पार्टी की शुरुआत करेंगे और आध्यात्मिक राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। पूर्व कांग्रेस नेता मनियन को रजनीकांत ने अपनी प्रस्तावित पार्टी में प्रभारी की भूमिका दी है।

मनियन ने यहां संवाददाताओं से कहा कि आध्यात्मिक राजनीति और धार्मिक राजनीति के बीच कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता का कोई धर्म नहीं होता। एक आध्यात्मिक व्यक्ति वह है जो प्रत्येक प्राणी में स्वयं को और सबको स्वयं में देखता है। उसकी कोई जाति. धर्म या भेद नहीं होता। आध्यात्मिकता

सबसे प्रेम करने का माध्यम है। रजनी वही करने जा रहे हैं। मनियन ने कहा कि रजनीकांत की राजनीति को किसी विशेष धर्म के खिलाफ या पक्ष में नहीं देखना चाहिए क्योंकि वह उन सभी तमिल लोगों के ऋणी हैं जिन्होंने उन्हें ऊंचाई पर पहंचाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वह किसी विशेष धर्म या जाति के लिए काम करेंगे। जाति और धर्म से ऊपर उठकर पूरे तमिलनाड़ ने उन्हें इस ऊंचाई पर पहुंचाया है और इसलिए उन्होंने सभी को साथ लेकर आध्यात्मिक राजनीति करने का फैसला लिया है।

शीर्ष न्यायालय ने बलात्कार के मामले में सजा बरकरार रखी

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती के बलात्कार के मामले में आरोपी की दोष सिद्धि तथा सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए तथा उन्हें विशेष देखभाल और प्रेम की जरूरत होती है।

शीर्ष न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के सितंबर 2016 के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए कहा कि दोषी ने युवती की मानसिक स्थिति का फायदा उठाते हुए उसका शोषण किया। उच्च न्यायालय ने आरोपी को बरी करने के निचली अदालत को आदेश को रद्द करते हुए उसे दोषी करार दिया था।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाले पीठ ने अपने फैसले में कहा कि डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक 19 वर्षीय पीडिता ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसका जैविक पिता दोषी व्यक्ति ही है। यह मामला जब सामने आया तब पीड़ित लड़की को 31 हफ्ते का गर्भ था। न्यायमूर्ति आरएस रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह भी

पीठ ने कहा, 'सबूतों के आधार पर यह साबित हो चुका है कि पीड़ित युवती मानसिक रूप से विकसित नहीं है, उसका आइक्यू स्तर 62 है और वह यौन उत्पीड़न के बारे में समझने की स्थिति में नहीं है।' पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवती के पिता ने 2008 में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी जिसमें कहा था कि उनकी बेटी गर्भवती है और उसने अपनी मां को बताया कि आरोपी ने उसका तब बलात्कार किया जब वह मवेशियों को चराने के लिए गई थी। युवती ने जून 2008 में बच्चे को जन्म दिया था।

राजस्थान : तीन हजार रुपए रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार

जयपुर, 5 दिसंबर (भाषा)।

आरोपी पटवारी

गिरधारीदान (33) ने

परिवादी मोताराम से

पुश्तैनी कृषि भूमि पर

निर्मित बोरवेल पर

कृषि बिजली कनेक्शन

के लिए दस्तावेज

तैयार करने और

नक्शा तैयार करने के

लिए दस हजार रुपए

की रिश्वत मांगी थी।

भ्रष्टाचार रोधी ब्युरो के अधिकारियों के एक दल ने सिरोही जिले की पिंडवाड़ा तहसील के पटवारी को तीन हजार रुपए की कथित रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

सिरोही ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नारायण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि आरोपी पटवारी गिरधारीदान (33) ने

परिवादी मोताराम से पृश्तैनी कृषि भूमि पर निर्मित बोरवेल पर कृषि बिजली कनेक्शन के लिए दस्तावेज तैयार करने और नक्शा तैयार करने के लिए दस हजार रुपए की रिश्वत

उन्होंने बताया कि आरोपी पटवारी ने परिवादी से रिश्वत की पहली किस्त सात हजार रुपए पहले ही ले लिए थे। उन्होंने बताया कि आरोपी को शनिवार को परिवादी से रिश्वत की दूसरी किस्त के तौर पर तीन हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।

ब्यरों के अधिकारियों के एक अन्य दल ने शनिवार को प्रतापगढ़ जिले में नगरपरिषद कार्यालय में कार्यरत जमादार रितेश चनाल

(33) को परिवादी अरुण चनाल से 2,500 रुपए की कथित रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो में नियुक्त पुलिस उपाधीक्षक हेरम्ब जोशी ने बताया कि आरोपी रितेश चनाल ने परिवादी की पत्नी को सफाई हलका आवंटित करने एवं देर से कार्य पर आने एवं कभी-कभी काम पर नहीं आने पर अनुपस्थित दर्ज नहीं करने के एवज में 2,500 रुपए प्रतिमाह रिश्वत की मांग की थी।

उन्होंने बताया कि नगर परिषद में करीब 100-120 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

भारत के किसानों को लेकर कनाडा की रुचि अजीब है : भाजपा

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (भाषा)

भाजपा ने भारत में किसानों के प्रदर्शन पर कनाडा के रुख की आलोचना करते हुए शनिवार को इसे 'पाखंड' करार देते हुए कहा कि वह डब्ल्युटीओ में न्युनतम समर्थन मुल्य और अन्य कृषि नीतियों का विरोध करता है और भारत के खाद्य एवं जीविकोपार्जन सुरक्षा सहित घरेलू कृषि उपायों पर सवाल उठाता है।

भाजपा के विदेश मामलों के प्रभारी विजय चौथाइवाले ने टुवीट किया, 'वह (कनाडा) भारत के किसानों को बचाने के लिए लागू आयात पांबदियों का विरोध करता है। डल्ब्युटीओ में भारत की कृषि नीतियों पर कनाडा ने सवाल उठाए और यह इस हकीकत के सबूत हैं कि भारत के किसानों और कृषि उत्पादकों की वास्तविक बेहतरी को लेकर कनाडा की चिंता कितनी कम है।' कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन

टूडो ने भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया था और कहा था कि उनका देश शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का हमेशा समर्थन करेगा। उन्होंने हालात पर चिंता जताई थी। भारत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए शुक्रवार को कनाडा के उच्चायुक्त नादिर पटेल को समन कर टूडो और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के बयानों पर एतराज जताया और कहा देश के आंतरिक मामलों में 'हस्तक्षेप अस्वीकार्य' है और इस मामले में यह कार्रवाई जारी रहती है तो द्विपक्षीय संबंधों को 'गंभीर नुकसान' पहुंच सकता है।

भाजपा नेता ने कहा, 'भारतीय किसानों को बचाने के लिए आयात पाबंदियों का कनाडा ने विरोध किया। वह ड्ब्ल्यूटीओ में भारत की कृषि नीतियों पर सवाल उठाता है और ऐसे में भारतीय किसानों को और कृषि उत्पादकों के बारे में चिंता अजीब है।' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर, बेहतर प्रौद्योगिकी तक पहुच मुहैया करा कर, प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए उचित बीमा दिला कर किसानों को सशक्त करने को उच्च प्राथमिकता दी है।

जेनोमिक वैली बायोटेक लिमिटेड

पंजी. कार्या.: 4 कि.मी. स्टोन, बेरी छर्रा रोड, ग्राम खेरका मुसलमान, पी.ओ. टंडाहेरी, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा-124507,

CIN:L01122HR1994PLC033029; टेली.:+91-9811341542 ई-मेल:genomicvalley@gmail.com; http://www.genomicvalley.com पर मिलें 26वीं वार्षिक साधारण सभा की सचना

एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि जेनोमिक वैली बायोटेक लिमिटेड (CIN L01122HR1994PLC033029) की 26वीं (छब्बीस वीं) वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम'') गुरुवार 31 दिसम्बर, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. में 4 कि.मी. स्टोन, बेरी छर्रा रोड, पी.ओ. टंडाहेरी, तह, बहादरगढ, जिला झज्जर, हरियाणा-124507 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें कम्पनी के सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें कम्पनी के सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जाने वाली एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सर्क्युलर नं. 14/2020 तथा 17/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 क्रमशः (''एमसीए सक्युलर्स'') तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के लागू होने वाले प्रावधानों तथा सेबी (सुचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 (सेबी सूचीयन विनियमन) के साथ पठित सर्क्युलर नं. 20/2020 तिथि 5 मई, 2020 के अनुपालन में कम्पनी की एजीएम 4 कि.मी. स्टोन, बेरी छर्रा रोड, पी.ओ. टंडाहेरी, तह. बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा-124507 में कम्पनी के पंजीकृत

कार्यालय में आयोजित की जायेगी। उपरोक्त एमसीए सर्क्युलर्स तथा सेबी सर्क्युलर तिथि 12 मई, 2020 के अनुपालन में एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2019-20 को वार्षिक रिपोर्ट सभी ऐसे सदस्यों को भेजा जाएगा जिनके ईमेल का पता कम्पनी/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत है। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.genomicvalley.com तथा स्टॉक एक्सचैंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध कराया जायेगा।

सुचना तथा वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये सदस्यों से आग्रह है कि यदि शेयर डीमैट पद्धत्ति में धारित है तं डिपॉजिटरीज के पास तथा यदि शेयर भौतिक पद्धत्ति में धारित है तो कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट अर्थात बीटल फाइनांसियल एंड कम्पयुटर सर्विसेस प्राईवेट के पास अपनी ईमेल पता पंजीकृत∕अद्यतन कराऐं। ई−मेल पते के पंजीकरण से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये सदस्य beetal@beetalfinancial.com य cs.govbl@gmail.com पर लिखें।

कट-ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य रिमोट ई वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग तथा एजीएम स्थल पर मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे। ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कम्पनी ने सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड की सेवाएँ प्राप्त की है। सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है किः

1. जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे भी एजीमएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन पनः मतदान करने के लिये अधिकत नहीं होंगे:

2. जिन सदस्यों का नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभ–भोगी स्वामियों

यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट–ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे beetal@beetalfinacial.com अथवा cs.gvbl@gmail.com पर अनुरोध भेज कर यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने कम्पनी में अपने ईमेल पते दर्ज नहीं कराये हैं, वे फोलिय नं. तथा शेयर धारकों के नाम का उल्लेख करते हुए पैन तथा आधार की स्वतः सत्यापित प्रति के साथ अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति या beetal@beetalfinacial.com अथवा cs.gvbl@gmail.com पर कम्पनी के पास ई मेल द्वारा भेजकर वार्षिक रिर्पोट 2019-2020 के साथ एजीएम की सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

सदस्यों से आग्रह है कि सदस्य के नाम, फोलियो संख्या, बैंक खाता का विवरण, पैन की स्वतः सत्यापित प्रति तथा निरस्त किये गये चेक लीफ के साथ अनुरोध पत्र की प्रति के साथ क्रमशः डीमैट पद्धति में धारित शेयरों के मामले में अपने डिपॉजिटरीज के पास तथा भौतिक धारिता के मामले में कम्पनी के आरटीए अथवा कम्पनी के पास beetal@beetalfinacial.cor अथवा cs.gvbl@gmail.com पर उसे भेजकर अपने सम्पूर्ण बैंक खाता के विवरणों को अद्यतन करा लें।

बोर्ड के आदेश र जेनोमिक वैली बायोटेक लिमिटेड के लि (योगोश अग्रवाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशव

Orchid Pharma Ltd. Formerly Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Limited)

CIN No.: L24222TN1992PLC022994 Regd. Off.: "ORCHID TOWERS", 313, Valluvar Kottam High Road, Nungambakkam, Chennai - 600 034, India. Tel: (91) - 44 - 28211000; Fax: (91) - 44 - 28211002 E-mail: corporate@orchidpharma.com; Website: www.orchidpharma.com

NOTICE OF THE 27TH ANNUAL GENERAL MEETING

E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 27th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Orchid Pharma Limited will be held on Wednesday, December 30, 2020 at 12:00 Noon (IST) through Video Conferencing Facility ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") for the transaction of the Ordinary and Special businesses, as set out in the Notice of the AGM. In view of the continuing COVID-19 global pandemic, the Ministry of Corporate Affairs vide its Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020 and Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 allows conducting of Annual General Meeting of the Company through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") without the physical presence of the Members for the meeting at a common venue. In terms of the said circulars and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM. Hence, Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only

Notice of the 27th AGM along with the Annual Report for the Financial year 2019-20 is being sent only through electronic means, in accordance with the aforesaid MCA Circulars and relaxation granted by the Securities and Exchange Board of India vide Circular dated May 2020, to all those members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agents or Depository Participant(s). The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide the above MCA Circulars and the SEBI Circular. Members may note that the Notice of the 27th AGM and the Annual Report 2019-20 of the Company is available on the website of the Company at www.orchidpharma.com and on the websites of National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com and BSE Limited www.bseindia.com. A copy of the same is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) (agency providing the VC/OAVM facility, Remote e-voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. www.evotingindia.com. For any communication, the shareholders may also send requests to the following mail id: nikitak@orchidpharma.com

In compliances with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members electronic voting facility before as well as during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating voting through electronic means. E-Voting: The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the 27° AGM of the Company. Members are requested to note as follows:

The remote e-voting period shall commence on Saturday, December 26, 2020 at 9.00 A.M. (IST) and ends on Tuesday, December 29, 2020 at 5.00 P.M. (IST).

Members will not be able to cast their vote through remote e-voting beyond the said date and time and the remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter Additionally, the facility for e-voting shall also be made available at the time of AGM and Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote during the AGM. A Member who have exercised his right to vote through Remote e-voting may participate in the AGM but shall not be

Members whose names appear on the Register of Members/Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date for e-voting i.e., Wednesday, December 23, 2020, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting at the AGM. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member after despatch of the Notice but before the cut-off date for voting, i.e., Wednesday, December 23, 2020 may obtain the login ID and password by sending an e-mail to helpdesk.evoting @cdslindia.com by mentioning their Folio No./ DP ID and Client ID No or contacting our Registrar and Share Transfer Agents (RTA) M/s Integrated Registry Management Services Private Limited, 2nd Floor, Kences Towers, No. 1, Ramakrishna Street, North Usman Road, T. Nagar, Chennai - 600 017, Tamil Nadu, Phone: 044-2814 0801-803, E-mail yuvrai@integratedindia.in. A person who is not a member as on the cut-off date, should treat this Notice for information purpose only.

Ms. Lalitha S, Practising Company Secretary, Chennai has been appointed as Scrutiniser for conducting the voting process (electronically or otherwise) in a fair and transparent manner. The results declared along with the Scrutiniser's report shall be placed on the Company's website www.orchidpharma.com and the website of CDSL www.evotingindia.com and simultaneously communicated to the National Stock Exchange of India Limited and the BSE Limited, where the shares of the Company are listed, not later than forty eight hours after the conclusion of AGM.

Book Closure: Notice is hereby give pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from Wednesday, December 23, 2020 to Wednesday, December 30, 2020 (both days inclusive) for the purpose of the 27" AGM of the Company for the Financial year 2019-20.

Any query/ grievance in relation with voting by electronic means may be addressed to Ms. Nikita K, Company Secretary & Compliance Officer, Orchid Pharma Limited, "Orchid Towers", No. 313, Valluvarkottam high road, Nungambakkam, Chennai - 600034. Phone No.: 044-2824 4910, E-mail: nikitak@orchidpharma.com or to M/s Integrated Registry Management Services Private Limited, 2nd Floor, Kences Towers, No. 1, Ramakrishna Street, North Usman Road, T. Nagar, Chennai - 600 017, Tamil Nadu, Registrar and Share Transfer Agent, Phone: 044-2814 0801-803, E-mail: yuvraj@integratedindia.in or call CDSL on 022-23058542/43 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

By Order of the Board For Orchid Pharma Limited

Place: Chennai Date: December 04, 2020 A Dhanuka Group Compan

Nikita K Company Secretary

वेलगा फूडस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : शीम नगर, बदायूँ - 243601 उ० प्र० CIN: U15419UP 1983PLC005918

E: marketing@welgafoods.com, W: www.welgafoods.com T:+ 91 5832 224535, **F**: 5832 224561

सार्वजनिक सूचना

शेयरधारकों के ध्यानार्थ-वार्षिक साधारण बैठक की सूचना एमसीए परिपत्र दिनांक 05/05/20 साथ में पठित परिपत्र दिनांक 08/04/20 एवं 13/04/20

एवं उपरोक्त उदेश्य हेत् एजीएम में वर्णित व्यवसाय निष्पादन के अनुपालन में एतदद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की सैतीसवीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) सोमवार 28 दिसम्बर, 2020 को प्रातः 11:00 बजे विडियो कान्फ्रेसिंग ("वीसी")/अन्य आडियो विज्वल माध्यम ("ओएवीएम") द्वारा आयोजित की जायेगी। एजीएम की सूचना सभी सदस्यों जिनके ईमेल आईडीज कम्पनी एवं डिपाजटरीज के रिकार्ड में 5 दिसम्बर, 2020 को अंकित को भेज दी गई है। यदि किसी शेयरधारक ने अपना ईमेल आईडीज अथवा सम्पर्क विवरण अभी तक कम्पनी के पास पंजीकृत नहीं किया है, हम एक बार पुनः वार्षिक रिपोर्ट भेजने के लिए उनके ईमेल आईडीज एवं सम्पर्क नम्बर के पंजीकरण कराने एवं कम्पनी से एजीएम की सूचना एवं अन्य संचार के लिए वीरवार, 24 दिसम्बर, 2020 से पहले welgacs@gmail.com ivpcorporateconsultant@gamil.com पर अपडेट करा लें। कृपया नोट करें कि 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट की कोई भी भौतिक प्रतिलिपि सदस्यों को एजीएम से पहले अथवा बाद में नहीं भेजी जायेगीं।

> निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते वेलगा फूडस लिमिटेड

स्थान : बदायूँ तिथि: 05/12/2020

ग्यान प्रकाश प्रबन्ध निदेशक

पशुपति स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड CIN: L74900HR1979PLC009789, फोन: +91-11-47632200 पंजीकृत कार्यालय: गांव कप्रिवास, धारूहेड्डा, जिला रेवाडी, हरियाणा मुख्य कार्यालय: 127—128, त्रिभुवन कॉम्प्लैक्स, ईश्वर नगर, मधुरा रोड, नई दिल्ली—110065

वेबसाइट : www.pasupatitextiles.com 30 दिसम्बर, 2020 को आयोजित होने वाली 40वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के लिए पशुपति स्पिनिंगू एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों की 40वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 30 दिसम्बर, 2020 को प्रात : 10.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय गांव कप्रिवास (बारूहेडा), जिला रेवाड़ी, हरियाणा में आयोजित की जाएगी। कम्पनी ने वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने, एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल"

रेमोट ई-वोटिंग अवधि 26 दिसम्बर, 2020 (प्रात: 9.00 वजे) प्रारंभ होगी और 29 दिसम्बर, 2020 (सायं 5 00 बजे) समाप्त होगी। इस अववि के दौरान, कम्पनी के सदस्यगण जिन्होंने कट-ऑफ तिथि 23 दिसम्बर 2020 को भौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण किये हैं, वह ई-वोटिंग के माध्यम र अपना वोट दे सकते हैं। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद सदस्य को उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं

इसके अलावा, वार्षिक बंदी के लिए कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक 23 दिसम्बर, 2020 में 30 दिसम्बर, 2020 तक दोनों दिवस शामिल बंद रहेगी। 10वीं एजीएम की सूचना और विलीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत / उपलब्ध हैं। उपरोक्त कथित दस्तावेज स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com

पर उपलब्ध होंगे। सदस्यों के पास रिमोट ई--वोटिंग / एजीएम के दौरान ई--वोटिंग के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्घारित व्यवसाय पर अपना बोट इलेक्ट्रॉनिकली देने का अवसर होगा। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले प्रदस्थगण और ऐसे सदस्थगण जिन्होंने कम्पनी के पास अपना ई—मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, के लिए

रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई हैं। सदस्यगण जिन्होंने कम्पनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे ई-वोटिंग यूजर आईडी एवं पासवर्ड, एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 प्राप्त करने तथा बैंक खाता विवरण अपडेट कराने के लिए नीचे दिये गये निर्देशों के अनुसार अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं।

ई-वोटिंग यूजर आईडी एवं पासवर्ड, एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 प्राप्त करने के लिए अपना फोलियों नं_ नाम पते के साथ शेयर प्रमाणपत्र (आगे / पीछे) की प्रति, पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति एवं शेयरधारक के पते के समर्थन में किसी अन्य दस्तावेज की स्व-सत्यापित प्रति को ई-मेल ho@pasupatitextiles.com पर भेज ।

बैंक खाता विवरण अपडेट करने के लिए निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराएं : (i) बैंक खाता संख्या (ii) बैंक का नाम एवं शाखा का पता (iv) एमआईसीआर नम्बर (v) आईएफएससी कोड (vi), कॅंसल चेक की लीफ या बँक पासबुक की कॉपी / बँक द्वारा सत्यापित बँक विवरण कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के पास अपना ई-मेल पता / बैंक खाता विवरण

अपडेट कराएं। पशुपति स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड

तिथि : 05.12.2020 स्थान : नई दिल्ली

(कम्पनी सथिव) एम. नं. 28661

दीपिका बांगिया

सार्वजनिक उद्घोषणा [भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत]		
क्रम सं.	विवरण	विवरण
1.	कॉर्पीरेट ऋणधारक का नाम	मैकॉर पैकेजिंग लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	12.8.1996
3.	ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली एवं हरियाणा, नई दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	L74950DL1996PIC018459
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय:3198/15, 4था तल, गली नं. 1, संगत्राशन, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055, भारत
6.	इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया समापन की तिथि	26.11.2020
7.	कॉपोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू होने की तिथि	26.11.2020, आदेश की प्रति एनसीएलटी की वेबसाईट पर 2.12.2020 को अपलोड की गई
8.	परिसमापक के रूप में कार्यरत इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	नामः मोह. नाजिम खान, पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00076/2017- 18/10207, टेली.: +91-11-45095230
9.	ईमेलः	पताः जी-41, भूतल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली- 110008 ई मेल पताः nazim@mnkassociates.com
10.	परिसमापक के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पताः जी-41, भूतल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली- 110008 ई मेल पताः nazim@mnkassociates.com

26 दिसम्बर, 2020 एतद्द्वारा सुचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण नई दिल्ली पीठ IV ने 26 नवम्बर, 2020 (आदेश की प्रा एनसीएलटी की वेबसाईट पर 2 दिसम्बर, 2020 को अपलोड की गई) को मैकॉर पैकेजिंग लिमिटेड का परिसमापन शरू करने व एतदद्वारा मैकॉर पैकेजिंग लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर परिसमापक के पा

26 दिसम्बर, 2020 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें। फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्टॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स प्रमाण के सा व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है तिथि: 3 दिसम्बर, 2020

स्थानः नई दिल्ली

मोह, नाजिम खा

टाटा कैपिटल फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड 7वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 TATA

1. रवि पाल उदार, श्री धरम पाल उदार

म.नं. 510, मास हाउसिंग सोसाइटी, प्लॉट नं. 24, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

म.नं. 510, मास हाउसिंग सोसाइटी, प्लॉट नं. 24, सेक्टर-10,

द्वारका, नई दिल्ली-110075

3. मैसर्स जनक मेडिकोस. साझेदार रवि पाल उदार एवं रचना उदार बी-9 (बेसमेंट) शंकर गार्डन, विकास पुरी, नई दिल्ली-

विषय : अचल प्रतिभत आस्ति की बिक्री हेत प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1)

तथा नियम 8(8) के तहत सचना प्रिय श्रीमान /मैडम, अधिकृत प्राधिकार ने मैसर्स टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) की ओर से 19

फरवरी, 2020 को आपके **सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण खाता सं**. 7781826 के परिप्रेक्ष्य में प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) (''अधिनियम'') के तहत उसमें निर्धारित अवधि के भीतर सम्पूर्ण बकायों का भुगतान करने को कहते हुए आप सम्बोधितियों को एक माँग सचना निर्गत की थी। चूँकि सम्बोधिती इसमें निर्धारित अवधि के भीतर कथित सूचना का अनुपालन करने में असफल रहे, अतः

अधिकृत प्राधिकारी ने अचल सम्पत्ति : दुकान नं. 01, भूतल, द मलाड जागृति को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि., साईनाथ रोड, मलाड (पश्चिम), मुम्बई, महाराष्ट्र-400706, माप 438 वर्ग फीट (बिल्ड अप) क्षेत्रफल सिचुएटेड, सी.टी.एस. सं. 596, ग्राम मलाड उत्तरी, तालुका बोरिवली, मुम्बई उप नगरीय, जिला महाराष्ट्र पर स्थित (अधिक स्पष्ट रूप से 20 सितम्बर, 2017 के विक्रय विलेख

सीमाएँ निम्नलिखित हैं : पूर्व : मच्छी मार्केट उत्तर: शॉप लेन

पश्चिम : साई नाथ रोड दक्षिण : आन्तरिक सड़क

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत 07 नवम्बर, 2019 को कब्जा कर लिया है।

पुनः सूचना दिनांक 26.05.2019, 27.08.2019, 14.11.2019, 12.12.2019, 13.02.2020 तथा 21.03.2020 के अनुसार आपको यह सूचित किया गया था कि यदि अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना में माँगी गयी सम्पूर्ण राशि का भुगतान आपके द्वारा नहीं किया गया तो प्रतिभूत लेनदार क्रमशः 29.06.2019, 13.09.2019, 29.11.2019, 27.12.2019, 28.02.2020, **तथा** 11.04.2020 को संचालित होने वाली सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बंधक सम्पत्ति का विक्रय कर देंगे। साथ ही 17 जलाई, 2020 को कर्जदारों/सम्बोधितयों को यह सूचना भी निर्गत की गयी थी कि प्रतिभृति आस्ति की बिक्री निजी सन्धि द्वारा

हालाँकि प्रतिभृत लेनदार को कथित नीलामियों के परिप्रेक्ष्य में कोई संविदा नहीं प्राप्त हुई।

अब कम्पनी ने एक सम्भावित क्रेता से एक प्रस्ताव प्राप्त किया है जो रु. 1.50.00.000/- (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) की कुल विक्रय राशि पर बंधक सम्पत्ति को खरीदने का इच्छुक है। प्रतिभूति लेनदार उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के उपरान्त अपने बकायों की वसूली के लिए बंधक सम्पत्ति की बिक्री

उपर्युक्त परिस्थितियों के आलोक में प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के तहत वर्तमान सूचना आपके लिए निर्गत की जाती है जिसके द्वारा प्रतिभूत लेनदार आपसे एक बार पुनः 18 फरवरी, 2019 तक रु. 2,68,23,040.40/- (रुपये दे करोड़ अड़सठ लाख तेईस हजार चालीस एवं चालीस पैसे मात्र) तथा प्रयोज्य भावी ब्याज एवं प्रभारों का 26 दिसम्बर, 2020 तक भुगतान करने के लिए कहते हैं जिसमें असफल रहने पर अधिकृत प्राधिकारी उपर्युक्त के अनुसार निजी सन्धि के माध्यम से बंधक सम्पत्ति की बिक्री हेत् कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होंगे।

स्थान : नई दिल्ली अधिकृत प्राधिकारी, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इंटरवर्ल्ड डिजिटल लिमिटेड

सीआईएन : L72900DL1995PLC067808 पंजीकृत कार्यालय : 701, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्भा रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-43571044-45; फैक्स : 011-43571047, वेबसाइट : www.interworlddigital.in, ईमेल : interworlddigital.in@gmail.com

वार्षिक आम बैठक, बक क्लोजर एवं रिमोट ई-वोटिंग की सचना रतद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना दिनांक 30 नवम्बर, 2020 में निर्धारित प्रकार्य के लेन–देन के लिए कम्पनी की 29वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 30 दिसम्बर, 2020 को 9.30 बजे पूर्वा. 701, अरुणाचल बिल्डिंग, 19 बाराखम्भा रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 पर आयोजित की जायेगी। एजीएम की सुचना तथा वित्त वर्ष 2019-2020 की वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों के पास अनुमत्य माध्यम से 05 दिसम्बर, 2020 को भेजी जा चुकी है।

91 एवं उसके तहत निर्मित प्रयोज्य नियमों के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पर्न की शेयर अंतरण पुस्तिकाएं एजीएम के उद्देश्य से बृहस्पतिवार, 24 दिसम्बर, 2020 से बुधवार, 30 दिसम्बर, 2020 तक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुपालन गं कम्पनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के प्लेटफॉर्म पर रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम रं

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धार

दिनांक 30 नवम्बर, 2020 की एजीएम सूचना में उल्लिखित के अनुसार सभी प्रकार्य मदों पर लेन-देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मुविधा उपलब्ध कराई है। रिमोट ई-वोटिंग 27 दिसम्बर, 2020 को 9.00 बजे प्रातः से प्रारम्भ होगी और 29 दिसम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. को समाप्त होगी। कथित तिथि एवं समय के पश्चात रिमोट-ई वोटिंग की अनमति नहीं होगी। रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों सहित वार्षिक आम बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.interworlddigital.in तथा एजेंसी की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रदर्शित की गयी है। बधवार, 23 दिसम्बर, 2020 तक शेयर धारण करने वाले कम्पनी के सदस्य सीडीएसएल के रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म www.evotingindia.com पर इलेक्टॉनिक रूप रं अथवा आम बैठक के दौरान बैलट प्रपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग के पश्चात भी सदस्य आग बैठक में भाग ले सकते हैं किन्तु वे बैठक के दौरान मतदान के पात्र नहीं होंगे। यदि मतदान कर दिया जाता है तो इसे अवैध माना जायेगा और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान पर विचार किया जायेगा। सदस्य एजीएम की सूचना में मुद्रित वे अनसार ई-वोटिंग से संबंधित निर्देश ध्यानपर्वक पढ लें। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी पछताछ या मददे के लिए वे हेल्प खण्ड के तहत www.evotingindia.com पर उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें। शेयरधारक अपने ई-मेल आईडी वे पंजीकरण/अपडेशन तथा अन्य मामलों के लिए रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट मैसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सम्पर्क नं. 011-40450193 से 97 पर या अपने सम्बद्ध डिपॉजिटरी से सम्पर्क कर सकते हैं। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य सेबी परिपत्र सं. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 दिनांक 8 जन 2018 के अनसरण में अपने शेयर डीमैटीरियलाइज्ड करा लें। पनः सदस्यों से निवेदन है कि वे आरटीए/कम्पनी के सार्थ अपने ई-मेल आईडी. पैन कार्ड तथा बैंक विवरण पंजीकत करा लें। इस संबंध में आवश्यक सचना कम्पनी द्वारा पहले ह

अलग से सदस्यों को भेज दी गयी है। कोविड महामारी के दौरान एजीएम का आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरका द्वारा जारी नवीनतम दिशा–निर्देशों/परामर्शियों/एसओपी के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों एवं अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल सहित फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन आदि का कठोरता से अनुपालन में सम्पन्न होगा।

> कृते एवं हिते निदेशक मंडल इंटरवर्ल्ड डिजिटल लिमिटेड पीयूष कुमार अग्रवाल

> > डीआईएन : 00090423

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 06/12/2020

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248171

समक्ष वसूली अधिकारी-प्रथम, ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून बिक्री घोषणा की सूचना (ऋण वसूली व दिवालियापन अधिनियम, 1993 के अनुभाग 25 से 29 के साथ पढ़ते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अन्तर्गत नोटिस)

आर.सी. संख्या 527/2019, ओ.ए. संख्या 282/2019 डायरी संख्या 981, दिनांकः 23.11.2020 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम मैसर्स मनोज कुमार एवं अन्य श्री मनोज कुमार पुत्र श्री राजपाल सिंह, निवासीः मीहल्ला गुजरातियान जसपुर, उथम सिंह नगर,

उत्तराखण्ड। वितीय पताः श्री मनोज कुमार पुत्र श्री राजपाल सिंह, निवासीः देवीपुरा सुरज नगर रोड, जसपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड। **श्रीमती सर्वेश देवी पत्नी श्री मनोज कूमार, निवासीः मीहल्ला** गुजरातियान जसपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड। **डितीय पताः** श्रीमती सर्वेश देवी पत्नी श्री मनोज कुमार, निवासीः देवीपुरा सुरज नगर

रोड, जसपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड। श्री राजपाल पुत्र स्व0 श्री रामस्वरूप सिंह, निवासीः ग्राम- रतुपुरा, टाकुर द्वारा, जिला- मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। क्रितीय पताः राजपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री रामस्वरूप सिंह, निवासीः देवीपुरा सुरज

नगर रोड, जसपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड। श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री राजपाल सिंह, निवासीः ग्राम- रतुपुरा, तहसील-ठाकुरद्वारा, जिला-मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। **द्वितीय पताः** श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री राजपाल सिंह, निवासीः देवीपुरा सर्टिफिकेट डेबटर्स सुरज नगर रोड, जसपुरा, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड।

सौ सन्नह एवं उनसठ पैसे मान्न) + वाद कालीन प्रभावी ब्याज, ओ.ए. की दिनांक 18.06.2019 से @11.00% प्रतिवर्ष साधारण व्याज की दर से अन्य खर्चै बकाया है। जो कि प्रेसीडिंग ऑफिसर ऋण वसूली अधिकरण-देहरादून के द्वारा दिनांक 24.10.2019 को जारी वसूली प्रमाणपत्र के ओ.ए. 282/2019 के अनुसार आपके विरुद्ध रू० 1,17,272 का वाद व्यय सहित देय हैं। आपको इसके द्वारा सुचित किया जाता है कि बिक्री की उदघोषणा को आकर्षित करने और

यह सुचित करना है कि आप पर रू0 59,48,417.59/— (उनसठ लाख अड़तालीस हजार चार

इसके लिए शर्तों को निपटाने के लिए 13.01.2021 तय किया गया है। आप इसके द्वारा उल्लिखित गिरवी संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से पर, यदि कोई हो, तो गिरफ्तारी, आरोपों, दावों या देनदारियों का खुलासा करने के लिए निर्देशित किया जाता ह ताकि बिक्री के नियम और शर्तों का निपटान किया जा सके। सम्पत्ति का विवरण

खसरा नं0 498एम, क्षेत्रफल 0.223 हेक्टयर/2230 वर्ग मीटर, विक्रेय विलेख दिनांक 01.02.2014 पाम- हरिपुरा, तहसील- जसपुरा, जिला- उथम सिंह नगर, सीमायें: रजिस्ट्रार-जसपुर (उधम सिंह नगर) पुर्वः नाला, पश्चिमः कृपाल सिंह की सम्पत्ति एवं रास्ता, उत्तरः अपर बुक नं0 1, जिल्द नं0 190, तारा सिंह की सम्पत्ति, दक्षिणः विजय पाल सिंह की सम्पत्ति। पेज नं0 71-94, क्र. सं0 561, 2. (ए) किता त्रिभुज आकृति खसरा नं0 270एम, क्षेत्रफल 320 है वर्ग फीट, ग्राम- देवीपुरा, तहसील- जसपुर, जिला-उधम सिंह नगर, दिनांक 01.02.2014।

सीमाये:-पूर्वः किता नं0 2, साइड माप 32 फीट, पश्चिमः सुरज विक्रेय विलेख दिनांक 25.09.2012 नगर जसपुर मार्ग, साइड माप 39 फीट, उत्तरः सुरेन्द्र कुमार,|रजिस्ट्रार-जसपुर (उधम सिंह नगर) अपर बुक नं0 1, जिल्द नं0 117, बी) सभी किता खसरा नं0 270 एम, क्षेत्रफल 1440 वर्ग फीट, पेज नं0 345-348, क. सं0 2971, ग्राम- देवीपुरा, तहसील- जसपुर, जिला-उथम सिंह नगर, सीमायें:- दिनांक 25.09.2012। हुर्वः सुरेन्द्र कुमार की सम्पत्ति, साइड माप 32 फीट, पश्चिमः भूमि

किता नं0 1, साइड माप 32 फीट, उत्तरः सतेन्द्र कुमार की सम्पत्ति, साइड माप 45 फीट, दक्षिणः चकरोड, साइड माप 45 फीट। अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से 23 नवम्बर, 2020 से जारी।

रिकवरी अधिकारी-।, डीआरटी, देहरादून

रीबा टेक्सटाइल्स लिमिटेड सीआईएन : L18101DL1989PLC034528 पंजीकत कार्यालय : डीडी-14. नेहरू एन्कलेव. सामने कालकाजी पोस्ट ऑफिस, नई दिल्ली-110019

ई-मेल company.affairs@ribatextiles.com, वेबसाईटः www.ribatextiles.com Tel No.: +91 11 26236986, Fax No.:+91 11 26465227 32वीं एजीएम, ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि रीबा टेक्टाइल्स लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 32वीं वार्षिक साधारण सभा बुधवार, 30 दिसम्बर, 2020 को 11.30 पुर्वा. में विडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विज्अल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जाएगी जिसमें सचना जिसे वार्षिक रिपोर्ट के साथ इलेक्टॉनिक पद्धित से उन सदस्यों को भेजा गया है जिनके ईमेल पता कम्पनी/आरटीए के पास पंजीकृत हैं, में वर्णित व्यवसायों क निष्पादित किया जायेगा। एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी (प्रबंध एंव प्रशासन) नियमावली, 2014, समय-समय प

यथा-संशोधित के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथ कम्पनी की शेयर अंतरण पस्तकें 24 दिसम्बर, 2020 से 30 दिसम्बर, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक उक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे। कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 तथा सेबी एलओडीआर 2015 के विनियमन 44 (इस समय में लागू उसके किसी सांविधिक संशोधन (नों) अथवा पुनरीक्षणों सहित) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार यह कम्पनी वार्षिक साधारण सभा की सूचना में विचार करने के लिये प्रस्तावित सभी प्रस्तावों के लिये सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड

(सीडीएसएल) के प्लेटफार्म पर ई-वोटिंग सुविधा द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की सुविधा सहष अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रही है। पुनः ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध होगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पुर्व ई-वोटिंग द्वार इलेटॉनिक रूप से अपना मतदान कर दिये हों, वे भी विडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन एजीएम में फिर से मतदान करने के लिंग

स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई–वोटिंग तथा रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया तथा एजीएम में ई–वोटिंग का पर्यवेक्षण करने के लिये श्री करण अरोड़ा, मै. करण अरोड़ा एंड एसोसिएट्स के प्रॉप्साईटर, कार्यरत कम्पनी सचिव (सदस्यता सं. 43191) को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है किः कम्पनी की 32वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों रं मतदान द्वारा निष्पादित किया जाएगा;

. रिमोट ई-वोटिंग अवधि 27 दिसम्बर, 2020 (10.00 बजे पूर्वा.) में शुरू होगी तथा 27 दिसम्बर, 2020

को (5.00 बजे अप.) में बंद होगी:

. कट-ऑफ तिथि 23 दिसम्बर, 2020 है; . यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का शेयरधारक

स्थानः पानीपत

तिथि: 5.12.2020

बनते हैं तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात् 23 दिसम्बर, 2020 को शेयरधारित करते हैं, वे helpdesk.evot ing@cdslindia.com पर ईमेल भेजकर अथवा 022-23058542/43 पर कॉल कर अथवा अपर फोलिओ नं./ डीपीआईडी नं. का उल्लेख करते हुए Beetalrta@gmail.com पर अनुरोध भेजक लागिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। लेकिन यदि शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के लिए आरटीए/ डीपी के पास पहले से ही पंजीकृत हैं तो मतदान करने के लिए वे अपने वर्तमान युजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग करत सकते हैं। . सदस्य ध्यान रखें कि:

क. 29 दिसम्बर, 2020 को (5.00 बजे अप. आईएसटी) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी ख. कम्पनी के एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पहले अपना मतदान नहीं किये हों, वे एजीएम में मतदान

ग. रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर देने के बावजूद भी सदस्य एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन उन्हें फिर से मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी।

त्र. जिस व्यक्ति का नाम कट–ऑफ तिथि अर्थात् 23 दिसम्बर, 2020 को सदस्यों के रजिस्टर अथव डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होगा, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग तथ

एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे; . कम्पनी की 32वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.ritatextiles.com तथा बीएसई की वेबसाईट www.bseindia.com पर उपलब्ध है; तथा . यदि ई-वोटिंग से संबंधित आपकी कोई समस्या अथवा प्रश्न हो तो आप सहायता खंड के अंतर्गत्

www.evotingindia.com पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें। टोल फ्री नम्बरः 1800-22-5533 पर भी हेल्पडेस्क से सम्पर्क किया जा सकता है। 8. ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत निर्देशों के लिये सदस्यगण कृपया वार्षिक साधारण सभा की सूचना में ''टिप्पणी'' देखें

निदेशक मंडल के आदेश रं

रीबा टेक्स्टाइल्स लिमिटेड के लिये

(रविन्दर गर्ग अध्यक्ष एवं पूर्ण-कालिक निदेशक

DIN: 00202164

www.readwhere.com